

## भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन

भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं प्रोदयोगिकी का राजभाषा कार्यान्वयन में उपयोग के कार्यान्वयन एवं हिंदी के प्रचार - प्रसार व प्रगति के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारतीय खान ब्यूरो, मुख्यालय, नागपुर में दिनांक 15 दिसंबर, 2020 को अधिकारियों एवं कर्मचारियों हेतु ऑनलाइन हिंदी कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस हिंदी कार्यशाला में कुल 14 अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

हिंदी कार्यशाला में भारतीय खान ब्यूरो कार्यालय के डॉ. पी. के. जैन, राजभाषा अधिकारी ने 'राजभाषा नीति' विषय पर अपना व्याख्यान दिया।

अपने व्याख्यान में डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी ने हिंदी कार्यशाला के उद्देश्य और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हिंदी कार्यशाला का आयोजन भारत सरकार की राजभाषा नीति का ही एक अंग है। उन्होंने प्रतिभागियों के समक्ष भारत सरकार की राजभाषा नीति एवं प्रोदयोगिकी का राजभाषा कार्यान्वयन में उपयोग की विस्तृत जानकारी दी तथा हिंदी में कार्य करने के आसान व सरल तरीके बताते हुए भारतीय संविधान में हिंदी के प्रावधानों की जानकारी दी ।

कार्यशाला के पश्चात सभी प्रतिभागियों से कार्यशाला के विषय में उनकी प्रतिक्रियाएं भी प्राप्त की गईं। सभी प्रतिभागियों ने सकारात्मक प्रतिक्रियाएं व्यक्त की। अपनी प्रतिक्रियाओं में प्रतिभागियों ने कहा कि तकनीकी माध्यम से आयोजित की गई यह ऑन लाईन कार्यशाला सराहनीय है। कोरोना वायरस के कारण प्रत्यक्ष रूप से न होकर वेविनार के रूप में संपन्न यह कार्यशाला प्रशंसनीय है। कार्यशाला में डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी द्वारा दिए गए व्याख्यान की प्रतिभागियों ने प्रशंसा करते हुए कहा कि तकनीकी एवं कम्प्यूटर पर

दिया गया यह व्याख्यान हमारे दैनिक जीवन में लाभप्रद होगा तथा इस व्याख्यान को अत्यंत रोचक व तथ्यपूर्ण बताते हुए प्रतिभागियों के लिए इसे ज्ञानवर्धक बताया। साथ ही प्रतिभागियों ने तकनीकी माध्यम से वेबिनार के रूप में आयोजित की गई इस कार्यशाला के सफलता हेतु डॉ. पी. के. जैन, मुख्य खनिज अर्थशास्त्री एवं राजभाषा अधिकारी, श्री अभिनय कुमार शर्मा, सहायक संपादक एवं हिंदी अनुभाग की प्रशंसा करते हुए धन्यवाद दिया।



